

क्या जानवरों के प्रति क्रूरता के लिए दंड लागू होते हैं?

यदि कोई व्यक्ति जान-बूझ कर क्रूरता का व्यवहार करने या लापरवाही करने के लिए दोषी पाया जाता है, तो उसे जुर्माना (250 पेनल्टी यूनिट या लगभग \$41,000) देना पड़ सकता है या उसे 12 मास के लिए जेल हो सकती है। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति किसी जानवर के साथ एक या अनेक क्रूर व्यवहार करता है और इसके परिणामस्वरूप उस जानवर की मृत्यु हो जाती है या उसे गंभीर विकलांगता हो जाती है, तो उस व्यक्ति को जुर्माना (500 पेनल्टी यूनिट या लगभग \$82,000) देना पड़ सकता है या उसे 2 वर्ष के लिए जेल हो सकती है, और यदि ऐसा करने वाली कोई कंपनी है तो उसे 1,200 पेनल्टी यूनिट जुर्माना देना पड़ सकता है। अदालत में मुकदमा चलाए जाने पर व्यक्ति किस प्रकार के और कितने पशु रख सकता है, ऐसे नियंत्रण के आदेश दिए जा सकते हैं या फ़ौजदारी मामले के अंतर्गत सज़ा हो सकती है।

जब आप इंसपेक्टोरेट के पास रपट लिखवाते हैं तो क्या होता है?

- सभी रपटों की छान-बीन की जाती है। लेकिन, जिन रपटों पर शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।
- प्राइवेट एक्ट (गोपनीयता कानून) के अंतर्गत आप सुरक्षित रहेंगे और आपकी जानकारी को गोपनीय रखा जाता है, वह किसी को नहीं दी जाती।
- यदि आपके संपर्क का नंबर दिया गया हो, तो इससे सहायता मिलती है, विशेष रूप से तब, जब इंसपेक्टर को अधिक जानकारी की आवश्यकता हो, जैसे कि जगह का या जानवरों का पता पूछने के लिए, इत्यादि।
- गोपनीयता दोनों पक्षों के लिए लागू होती है, इसी कारण, हो सकता है कि आपको मामले के परिणाम के बारे में या ताज़ा जानकारी शायद न दी जाए।



rspcavic.org

03 9224 2222

3 Burwood Highway
Burwood East VIC 3151




दि रॉयल सोसाइटी फॉर दि प्रिवेशन ऑफ़ क्रूरप्ल्टी टु एनीमल्स (विक्टोरिया) ए बी एन 56 749 449 191 | ए सी एन 131 965 761

RSPCA विक्टोरिया के इंसपेक्टरों से कैसे संपर्क करें

- यदि आपका मानना है कि किसी पशु के जीवन को तुरंत खतरा है तो कृपया हमें 03 9224 2222 पर शीघ्र फ़ोन करें।
- आप rspcavic.org/report पर दिन के 24 घंटे ऑनलाइन रपट कर सकते हैं



जानवरों के प्रति
क्रूरता क्या है और
इसकी रिपोर्ट कैसे
की जा सकती है



विक्टोरिया में जानवरों के प्रति क्रूरता की परिभाषा कानून में है (प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टु एनीमल्स एक्ट 1986)। लेकिन जानवरों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इसको लेकर समाज की अपेक्षाएँ कभी-कभी कानून के अंतर्गत क्रूरता या लापरवाही की परिभाषा से अलग हो सकती हैं।

जानबूझ कर की जाने वाली क्रूरता

इसमें पीटना, अत्यधिक काम करवाना, प्रतारणा, घायल करना या कान का हिस्सा काट देने या पूँछ का कुछ भाग काट देने जैसी प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

लापरवाही (या ठीक प्रकार से देख-भाल न करना)

इसमें बुनियादी आवश्यकताएँ पूरी न करना शामिल है, जैसे स्वच्छ जल, भोजन या रहने के लिए सुरक्षित स्थान। यदि मालिक अपने बीमार या घायल पालतू पशु को किसी पशु-चिकित्सक के पास नहीं ले जाता तो वह भी लापरवाही माना जाता है।

जानवरों के प्रति क्रूरता या लापरवाही की रपट लिखवाना

विभिन्न प्रकार की रपटों पर विभिन्न एजेंसियों और विभिन्न स्तर की सरकारों द्वारा कार्रवाई की जाती है।

रपट का प्रकार	किससे संपर्क करें
कुत्ते का भौंकना	आपकी स्थानीय काउंसिल
लावारिस पशु	आपकी स्थानीय काउंसिल
लावारिस पशु/ऐसा पशु जिसका मालिक उसे छोड़ कर चला गया है	RSPCA विक्टोरिया के इंसपेक्टर लावारिस पशुओं के बारे में छान-बीन कर सकते हैं ☎ 03 9224 2222 🌐 rspcavic.org/report
बड़ी संख्या में पालतू जानवर (जैसे गाय, सूअर, भेड़)	डिपार्टमेंट ऑफ जॉब्स, प्रीसिंक्ट्स एंड रिजियन्स ☎ 136 186 📧 aw.complaint@agriculture.vic.gov.au
छोटी संख्या में पालतू जानवर (जैसे गाय, सूअर, भेड़ – किसी भी किस्म के 10 से कम पशु)	RSPCA विक्टोरिया के इंसपेक्टर ☎ 03 9224 2222 🌐 rspcavic.org/report
50 से कम मुर्गे/मुर्गियाँ	RSPCA विक्टोरिया के इंसपेक्टर ☎ 03 9224 2222 🌐 rspcavic.org/report
50 से अधिक मुर्गे/मुर्गियाँ	डिपार्टमेंट ऑफ जॉब्स, प्रीसिंक्ट्स एंड रिजियन्स (डी जे पी आर) ☎ 136 186 📧 aw.complaint@agriculture.vic.gov.au
गर्मी में कार के अंदर कुत्ते	विक्टोरिया पुलिस ☎ 000 – यदि आप किसी पालतू पशु को कार में गर्मी में छोड़ा हुआ देखें तो विक्टोरिया पुलिस को तुरंत फ़ोन करें।
जंगली जानवर	डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, लैंड, वाटर एंड प्लानिंग (डी ई एल डब्ल्यू पी) ☎ 136 186 🌐 wildlife.vic.gov.au/sick-injured-or-orphaned-wildlife
बीमार या घायल जानवर	RSPCA विक्टोरिया के इंसपेक्टर ☎ 03 9224 2222 🌐 rspcavic.org/report
पालतू पशु जिनका वज़न बहुत कम है/जिन्हें पूरा भोजन, पानी या सुरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं है	RSPCA विक्टोरिया के इंसपेक्टर ☎ 03 9224 2222 🌐 rspcavic.org/report

कृपया नोट करें कि संपर्क की सारी जानकारी 1 जुलाई 2021 को सही थी लेकिन उसके बाद बदल सकती है।